

15. HARYANA POLICE S.I. (M)

Morning Session

02-12-2018

1. हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है?
(a) यमुनानगर (b) रेवाड़ी
(c) महेंद्रगढ़ (d) चरखी दादरी
2. $(x+a)^{51} - (x-a)^{51}$ के विस्तारण में सरलीकरण के बाद पदों की कुल संख्या है
(a) 120 (b) 25
(c) 26 (d) इनमें से कोई नहीं
3. 2^{125} को 11 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा
(a) 7 (b) 10
(c) 8 (d) 6
4. निम्नलिखित में से कौन-सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग नहीं है?
(a) एलाइनमेंट (b) इंडेंटेशन
(c) लाइन स्पेसिंग (d) अंडरलाइन स्टाईल
5. आई.पी.सी. में के तहत जालसाज़ी को परिभाषित किया गया है।
(a) धारा 468 (b) धारा 463
(c) धारा 465 (d) धारा 467
6. यदि 'CENTRE' को 'CNRCNR' लिखा जा सकता है, तो उसी कूट में 'HAPPY' कैसे लिखा जा सकता है?
(a) YHPYA (b) HPYHP
(c) AHPYA (d) HPYAP
7. संश्लेषण में क्यूनोलिन बनाने हेतु प्राथमिक अमीन और एल्डीहाइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है।
(a) स्क्रीप (b) डॉइबनर-मिलर
(c) डफ (d) नॉर क्यूनोलिन
8. फतेहाबाद जिले को नाम इसके नास्त्रोतीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा है जिसकी नींव द्वारा 14वीं सदी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी गई थी।
(a) गियासुद्दीन तुगलक
(b) अलाउद्दीन खिलजी
(c) फिरोज शाह तुगलक
(d) उक्त में से कोई नहीं
9. निम्नलिखित में से कौन-सा हरियाणा को भौगोलिक लक्षण नहीं है?
(a) निम्न शिवालिक पहाड़ियाँ
(b) बांगर भूभाग
(c) यमुना घग्गर मैदान
(d) चंबल घाटी
10. सीरीया की राजधानी है
(a) मौजे (b) काबुल
(c) दमास्कस (d) तेल अवीव
11. वायुमंडल की परत जहाँ विद्युत चालकता होती है
(a) समतापमंडल (b) क्षोभमंडल
(c) आयनमंडल (d) मध्यमंडल
12. पुस्तक 'आई डू क्वाट आई डू' द्वारा लिखी गई है।
(a) रघुराम राजन (b) उर्जित पटेल
(c) अरविंद सुब्रमणियम
(d) अरविंद पनगढ़िया
13. प्रकार लॉजिकल मान को दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।
(a) इनम (b) कॅर
(c) डबल (d) बूल
14. यदि a, b, c, d, e माध्य m और मानक विचलन s वाली पर्यवेक्षण हैं, तो पर्यवेक्षण $kx_1, kx_2, kx_3, kx_4, kx_5$ का मानक विचलन है
(a) $K + S$ (b) S/K
(c) KS (d) S
15. $(3 + 2x)^{99}$ के विस्तारण में गुणांकों का योग क्या है?
(a) 5^{99} (b) 3^{99}
(c) 2^{99} (d) 6^{99}
16. की स्थापना बाबर द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर वियज की स्मृति में की गई।
(a) शाह कलंदर मज्जिद
(b) काबुली बाग
(c) लाल किला
(d) मयूर सिंहासन
17. $\sqrt{3} \sqrt{3} \sqrt{3} \dots \infty$ का मान है
(a) 0 या 3 (b) 3
(c) $3\frac{1}{3}$ (d) इनमें से कोई नहीं
18. हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। उनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा है
(a) भिंडावास राष्ट्रीय उद्यान
(b) कालेसर राष्ट्रीय उद्यान
(c) नाहर राष्ट्रीय उद्यान
(d) छिलछिला राष्ट्रीय उद्यान
19. निम्नलिखित में से कौन-सी फंक्शन कुँजी एक टॉगल कुँजी की भाँति संदर्भित मोड के परिवर्तन के लिए प्रयुक्त होती है?
(a) F2 (b) F8
(c) F4 (d) F6
20. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। कौन-सा अनुच्छेद इससे संबंधित है?
(a) 214 (b) 226
(c) 141 (d) 324
21. निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है?
(a) साहिबी नदी (b) बेड़च नदी
(c) दोहन नदी (d) चेनाब नदी
22. कॉम्प्टन शिफ्ट निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है?
(a) आपतित विकिरण
(b) प्रकीर्णन पदार्थ की प्रवृत्ति
(c) प्रकीर्णन का कोण
(d) आवृत्ति का आयाम
23. हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर, 1989 को करनाल जिले से निकाला गया। 24 जुलाई, 1991 को इसे फिर से करनाल जिले में मिला दिया गया। 1 जनवरी, 1992 को यह पुनः पृथक जिला बन गया। यह कौन-सा जिला है?

(63)

- (a) रोहतक (b) हिसार
(c) पानीपत (d) कुरुक्षेत्र

24. रानीखेत एक है।

- (a) विषाणु रोग (b) गोल कृमी रोग
(c) प्रोटोजोआ रोग (d) कवक रोग

25. कौन-सा प्राथमिक पोषक तत्व है?

- (a) सल्फर (b) कोबाल्ट
(c) सोडियम (d) पोटेशियम

26. ग्रेट बैरियर रीफ में स्थित है।

- (a) ऑस्ट्रेलिया (b) इंग्लैंड
(c) सऊदी अरब (d) न्यूजीलैंड

27. एच.सी.वी. का मतलब है-

- (a) हेवी कॅश व्हेइकल
(b) हेवी कमर्शियल व्हेइकल
(c) हैंड कमर्शियल व्हेइकल
(d) हेवी कन्सोलिडेटेड व्हेइकल

28. जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ, तब बंसीलाल सरकार द्वारा दूसरी राजभाषा को घोषित किया गया था।

- (a) पंजाबी (b) हिंदी
(c) हरियाणवी (d) तमिल

29. वास्तविक x हेतु यदि $\cos \theta = x + \frac{1}{x}$ है, तो

- (a) θ न्यूनकोण है (b) θ समकोण है
(c) θ अधिककोण है
(d) θ का मान संभव नहीं है

30. वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्ररहित नगर घोषित किया गया।

- (a) 2002 (b) 2004
(c) 2007 (d) 2018

31. जिस प्रकार 'मेंढ़क' से साँप संबंधित है, उसी प्रकार 'मेंढ़क' से क्या संबंधित है?

- (a) मक्खी (b) अजगर
(c) टैडपोल (d) कीड़ा

32. डिसिनेप्सिस या सजातीय गुणसूत्रों का वियुग्मन चरण में आरंभ होता है।

- (a) डाइकाइनेसिस (b) एनाफेज
(c) डिप्लोटीन (d) ज़ाइगोटीन

33. मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया?

- (a) कुरुक्षेत्र (b) पानीपत
(c) रोहतक (d) तराइन

34. कथन T & F & T है, जहां T सत्य है और F असत्य है।

- (a) सत्य (b) असत्य
(c) तटस्थ (d) कोई नहीं

35. राज्य का कार्यकारी प्रमुख है

- (a) मुख्यमंत्री (b) राज्यपाल

- (c) राष्ट्रपति (d) प्रधानमंत्री

36. सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक n कौन-सा है जिसके लिए $(1+i)^{2n} = (1-i)^{2n}$ है

- (a) 1 (b) 4
(c) 2 (d) 0

37. निम्नलिखित में से कौन-सी सही सुमेलित है?

- (a) अनुच्छेद 214-उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान
(b) अनुच्छेद 227-प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख का न्यायालय है
(c) अनुच्छेद 76-सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल प्राधिकार क्षेत्र है।
(d) अनुच्छेद 131-महालेखाकार का कार्यालय

38. शृंखला को पूर्ण करनेवाले लुप्त अक्षर ज्ञात करें।
/_n_m//m_n/_.

- (a) mnmm (b) mnmn
(c) mnmn (d) nmmn

39. आम के उपवनों का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है?

- (a) बेंगलुरु (b) अंबाला
(c) अमरनाथ (d) चेन्नई

40. 1 और 566 के बीच 3 या 5 से कितने पूर्णांक विभाज्य हैं।

- (a) 264 (b) 263
(c) 262 (d) 254

41. शृंखला अनुनादी परिपथ के गुणवत्ता कारक (Q), अनुनादी आवृत्ति (f_0) और बैंड चौड़ाई ($f_2 - f_1$) समीकरण द्वारा संबंधित है।

- (a) $Q = f_0 (f_2 - f_1)$ (b) $Q = \frac{f_2 - f_1}{f_0}$
(c) $f_0 = Q (f_2 - f_1)$ (d) $Q f_0 = \frac{1}{(f_2 - f_1)}$

42. भारत सरकार ने 23 अप्रैल, 1966 को की अध्यक्षता में विद्यमान राज्य पंजाब ने विभाजन और नए राज्य हरियाणा की सीमाएँ निर्धारित करने हेतु आयोग बनाया।

- (a) न्यायमूर्ति जे.सी. शाह
(b) न्यायमूर्ति एम. काटजू
(c) न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा
(d) न्यायमूर्ति रंजन गोगोई

43. वह शब्द चुनिए जो समूह में अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है

- (a) मेतूर (b) आसुवान
(c) हीराकुण्ड (d) सतलुज

44. बाणभट्ट के 'हर्षचरित' के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?

- (a) इसका प्रथम अध्याय लेखक के जीवन और परिवार को समर्पित है

(b) पाँचवा अध्याय हर्षवर्धन के पुत्र से संबंधित है

(c) छठा और सातवाँ अध्याय हर्षवर्धन के युद्धों और विजयों से संबंधित है

(d) अंतिम अध्याय विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का विवरण देता है

45. यदि $35^{1/x} = 7^{1/y} = 5^{1/z}$, तो $y + z =$

- (a) 35 (b) x
(c) $\frac{1}{x}$ (d) इनमें से कोई नहीं

46. नीति आयोग के अध्यक्ष हैं

- (a) वित्तमंत्री (b) राष्ट्रपति
(c) प्रधानमंत्री (d) गृहमंत्री

47. 3 कि.ग्रा. का भार लटकाने पर एक उर्ध्वाधर स्प्रिंग 3 से.मी. खिंचती है। जब 2.45 कि.ग्रा. का एक भार स्प्रिंग से लटकाया जाएगा, तब स्प्रिंग के दोलन की अवधि क्या होगी?

- (a) 0.415 S (b) 0.315 S
(c) 0.215 S (d) 0.115 S

48. को उर्दू काव्य के समीक्षा का पहला घोषणापत्र माना जाता है।

- (a) मुकद्दम-ए-शेरो-शायरी
(b) यादगार-ए-गालिब
(c) हयात-ए-सादी
(d) वो नबियों में रहमत लकाब पानायवाला

49. $\frac{\sin 50^\circ}{\sin 130^\circ}$ का मान है

- (a) -1
(b) 1
(c) 0
(d) परिभाषित नहीं किया जा सकता

50. 18वें एशियाई खेल, 2018 में हरियाणा ने 18 पदकों के साथ भारतीय राष्ट्रों के चार्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ये खेल कहाँ हुए?

- (a) मलेशिया (b) दिल्ली
(c) इंडोनेशिया (d) चीन

51. दूध के निकलने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है

- (a) ऑक्सीटॉसिन (b) ACH
(c) LH (d) इनमें से कोई नहीं

52. यदि दो घटनाएँ स्वतंत्र हैं, तो

- (a) ये परस्पर अनन्य होंगी
(b) इनकी प्रायिकताओं को योग 1 के बराबर होना चाहिए

- (c) (a) और (b) सही हैं
(d) उक्त में से कोई सही नहीं है

53. वर्तमान में, हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है

- (a) 25 (b) 29

(c) 32

(d) 36

54. मूल श्रृंखला का अनुसरण करते हुए दी गई संख्या से आरंभ कर श्रृंखला पूर्ण करें। (iii) के स्थान पर क्या आएगा?

105 53 27 14 7.5 4.25

(a) 9.5 (b) 11.5

(c) 9 (d) 11

55. या HTTP वेब अनुप्रयोगों को जोड़ने के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है।

- (a) हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल
(b) हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल
(c) हायर ट्रांसफर ऑफ टेक्स्ट प्रोटोकॉल
(d) हायेस्ट टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल

56. कला और सांस्कृतिक विरासत न्यास (TAACHT) ने विश्व के पहले विभाजन संग्रहालय की स्थापना, टाउन हॉल, अमृतसर, पंजाब, भारत में की। इस न्यास के अध्यक्ष हैं।

- (a) किश्वर देसाई (b) प्रीति सिंह
(c) सुनीता जैन
(d) उक्त में से कोई नहीं

57. हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्था में स्थापित की जाएगी।

- (a) पानीपत (b) सोनीपत
(c) चंडीगढ़ (d) हिसार

58. अधिकांश प्रजनन कार्यक्रमों में, मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से किन विशेषताओं की किस्म विकसित करना है?

- (a) सुसुप्तता
(b) उच्च उपज योग्यता
(c) बेहतर गुणवत्ता
(d) परिपक्वता तिथि में परिवर्तन

59. भिन्न संख्यात्मक युग्म चुनिए।

- (a) (16, 18) (b) (56, 63)
(c) (96, 108) (d) (86, 99)

60. मॉटेस्क्यू ने लिखा 'निरंतर अनुभव हमें दर्शाते हैं कि शक्ति संपन्न प्रत्येक व्यक्ति इसका दुरुपयोग करता है और तब तक अपना प्राधिकार चलाता है जब तक उसे सीमित न किया जाए।, यह पुस्तक से लिया गया है।

- (a) सोशल कॉन्ट्रैक्ट (b) लेवायथन
(c) द रिपब्लिक
(d) द स्पिरिट ऑफ लॉज

61. एल्गोरिथम विडियो ऑकड़ों को बाइट्स की संख्या घटाने के लिए संपीड़ित कर देता है ताकि वह सरलता से संप्रेषित हो सके और फिर असंपीड़ित कर देता है।

- (a) VoIP (b) MPEG

(c) ETHERNET (d) LAN

62. मानवी रक्त वर्ग AB का जीनोटाइप क्या है?

- (a) $I^A I^B$ (b) ii
(c) $I^A I^A$ (d) $I^B I^B$

63. स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल नगरों की संख्या है।

- (a) 99 (b) 100
(c) 199 (d) इनमें से कोई नहीं

64. को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है।

- (a) शेख मुहम्मद तुर्क
(b) शाह गुलाम जिलानी
(c) शाह मुहम्मद रमज़ान शहीद
(d) उक्त में से कोई नहीं

65. भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी?

- (a) फातिमा बीवी (b) रामा पॉल
(c) सुजाता मनोहर
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

66. हाल ही में, निम्नलिखित में से किस राज्य ने बिना सरकार को सूचित किए राज्य में जाँज और ऑपरेशन करने के लिए केंद्रीय जाँज ब्यूरो (सी. बी.आई.) को दी गई 'आम' सहमति वापस ले ली है?

- (a) कर्नाटक (b) पंजाब
(c) दिल्ली (d) आंध्रप्रदेश

67. उस समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या (से.मी. में) क्या होगी जिसकी भुजा 9 से.मी. है?

- (a) $3\sqrt{2}$ (b) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$
(c) $\sqrt{3}$ (d) $\frac{3\sqrt{3}}{4}$

68. श्रृंखला 2, 3, 6, 15, 42, ? में लुप्त संख्या ज्ञात करें।

- (a) 84 (b) 123
(c) 94 (d) 60

69. हरियाणवी लोककथाओं के अनुसार, गुग्गापीर को का रक्षक माना जाता है।

- (a) मानव (b) पक्षी
(c) गाय (d) सर्प

70. मोबाइल फोन में जी.पी.आर.एस. के लिए प्रयुक्त होता है।

- (a) एस.एम.एस. भेजने
(b) डाटा संप्रेषण
(c) ध्वनी संप्रेषण
(d) उक्त में से कोई नहीं

71. श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला त्यौहार है

- (a) गूग्गा नवमी (b) सांझी

(c) तीज

(d) गोवर्धन पूजा

72. डी.एन.ए. के बॉटसन और क्रिक मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन-सा असत्य है?

- (a) कुंडली में गहरे, चौड़े बड़े खाँचे और छिछले संकिर्ण छोटे खाँचे हैं।
(b) दोनों तंतु प्रतिसमनांतर चलते हैं।
(c) प्रत्येक $34 \text{ \AA}$ पर एक पूर्ण घुमाव होता है।
(d) 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा थायमिन के साथ एडेनिन संगठित हो सकता है और 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा साइटोसिन के साथ ग्वानिन संगठित हो सकता है।

73. निम्नलिखित में से कौन-सी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक मानकीकृत संस्था नहीं है?

- (a) ISO (b) ISI
(c) IEEE (d) ANSI

74. हाल ही में वैद्य गर्भपात पर निम्नलिखित में से किस देश में जनमत संग्रह हुआ?

- (a) स्पेन (b) इटली
(c) फिनलैंड (d) आयरलैंड

75. एक पारंपरिक पंजाबी मौखिक कथा-वर्णन है, जो दक्षिण एशिया में अरब प्रायद्वीप के प्रवासियों द्वारा आयी।

- (a) रासलीला (b) कटक
(c) गुग्गा (d) किस्सा

76. यदि A और B सममित आव्यूह है, तो AB - BA है

- (a) शून्य आव्यूह (b) सममित आव्यूह
(c) तिरछी-सममित आव्यूह
(d) इनमें से कोई नहीं

77. दक्षिण एशिया में लहसुन की कली का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पाया गया था जो परिपक्व हड़प्पा काल का था।

- (a) बाबरकोट (b) भिरड़ाना
(c) बालू (d) फरमाना

78. ऑनलाइन लेनदेन के संदर्भ में BHIM का मतलब है

- (a) भारत इंटरफेस फॉर मनी
(b) भारत इमीडिएट मनी ट्रांसफर
(c) भारत इंटरफेस फॉर मोबाइल मनी
(d) भारत इंटरनेट फॉर मनी

79. महाराणा प्रताप के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ें।

- (a) चित्तौड़गढ़ (b) हल्दीघाटी
(c) मेवाड़ (d) लाहौर

80. द्विआधारीत संख्या 10100101 का दशमलव समतुल्य है

- (a) 128 (b) 165

- (c) 156 (d) 135
81. संघीय प्रणाली की एक आवश्यक विशेषता है
 (a) शक्तियों का पृथक्करण
 (b) शक्तियों का विभाजन
 (c) शक्तियों का केंद्रीकरण
 (d) राज्यों की तानाशाही
82. अतिचालकता हेतु वांछित अत्यंत निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए क्रायोस्कोपी में प्रयुक्त होता है।
 (a) आर्गन (b) नियॉन
 (c) क्रिप्टॉन (d) हीलियम
83. समरूपता पूर्ण करें।
 महासागर : जल :: हिमनदी : ?
 (a) पहाड़ (b) गुफा
 (c) बर्फ (d) रेगिस्तान
84. हाल ही में भारत का पहला 3D तारामंडल निम्नलिखित में से किस नगर से उद्घाटित किया गया है?
 (a) नेहरू तारामंडल, दिल्ली
 (b) स्वामी विवेकानंद तारामंडल, मैंगलोर
 (c) तारा मंदिर, पोरबंदर
 (d) इनमें से कोई नहीं
85. विश्व विरासत स्थलों में से एक काल्का-शिमला रेल्वे वर्ष में बनी।
 (a) 1989 (b) 1906
 (c) 1898 (d) 1888
86. अपसंदर्भन हेतु प्रयुक्त ऑपरेटर है
 (a) * (b) &
 (c) → (d) ∴
87. यदि प्रत्येक प्लेट पर दो भिन्न अंकों के बाद 3 भिन्न अंक आते हैं, तो ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेट कितने तरीकों से बनाई जा सकती है?

- (a) 468000 (b) 39000
 (c) 260 (d) इनमें से कोई नहीं
88. ई.पू. 487 में प्रथम बौद्ध समिति राजगृह में हुई इसकी अध्यक्षता ने की।
 (a) मोग्गलीपुत तिस्सा
 (b) महाकस्सप
 (c) वसुमित्र (d) महासंधिक
- English Language**
 Select the correct expression and fill in the blanks :
89. He has world a great deal.
 (a) knocked in
 (b) knocked down
 (c) knocked about
 (d) knocked up
90. The plaintiff was when the suit was dismissed.
 (a) put in (b) put out
 (c) put up with (d) put on
- Identify the figure of speech in the following sentence:
91. "The child is the father of the man"
 (a) Metaphore (b) Antithesis
 (c) Epigram (d) Hyperbole
92. "Milton! thou should'st be living at this hour."
 (a) Apostrophe (b) Simile
 (c) Euphemism (d) Oxymoron
- Fill in the blank with appropriate preposition selecting from the given options:
93. The Motor Vessel Victoria is bound Naples.
 (a) for (b) to
 (c) through (d) by

94. Indulgence drink is one of the roads to ruin.
 (a) for (b) in
 (c) with (d) to
- हिन्दी भाषा**
95. कौन-सा वाक्य शुद्ध है?
 (a) राम ने कहानी सुनेगा।
 (b) राम ने कहानी सुनता है।
 (c) राम ने कहानी सुनता था।
 (d) राम ने कहानी सुनी है।
96. 'तारे गिनना' मुहावरे का अर्थ है।
 (a) नींद न आना (b) अधिकार रखना
 (c) क्रोध बढ़ाना (d) हार मानना
97. 'लड़का' शब्द का भाववाचक संज्ञा का रूप है।
 (a) लड़कियाँ (b) लड़की
 (c) लड़कपन (d) लड़के
98. शब्द किसे कहते हैं?
 (a) एक या एक से अधिक ध्वनी समूहों को
 (b) एक या अनेक वर्णों से मिलकर बनी सार्थक ध्वनियों को
 (c) ध्वनि की लघुतम इकाई को
 (d) एक या एक से अधिक वर्णों के समूहों को
99. राजा की सभा = "राजसभा" यह कौन-सा समास है?
 (a) बहुव्रीहि (b) अव्ययी भाव
 (c) तत्पुरुष (d) द्वन्द्व
100. "माँ बच्चे को दूध पिलाती है" इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है।
 (a) माँ ने बच्चे को दूध पिलाया।
 (b) माँ बच्चे को दूध पिला रही है।
 (c) माँ बच्चे को दूध पिलायेगी।
 (d) माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है।

उत्तरमाला

1. (a)	2. (c)	3. (b)	4. (d)	5. (b)	6. (b)	7. (b)	8. (c)	9. (d)	10. (c)
11. (c)	12. (a)	13. (d)	14. (c)	15. (a)	16. (b)	17. (b)	18. (b)	19. (c)	20. (c)
21. (d)	22. (c)	23. (c)	24. (a)	25. (d)	26. (a)	27. (b)	28. (d)	29. (d)	30. (c)
31. (a)	32. (c)	33. (d)	34. (a)	35. (c)	36. (c)	37. (a)	38. (b)	39. (b)	40. (a)
41. (c)	42. (a)	43. (d)	44. (b)	45. (b)	46. (c)	47. (b)	48. (a)	49. (b)	50. (c)
51. (a)	52. (d)	53. (b)	54. (b)	55. (a)	56. (a)	57. (b)	58. (b)	59. (d)	60. (d)
61. (b)	62. (a)	63. (b)	64. (a)	65. (a)	66. (d)	67. (a)	68. (b)	69. (d)	70. (c)
71. (c)	72. (d)	73. (b)	74. (d)	75. (d)	76. (c)	77. (c)	78. (a)	79. (b)	80. (b)
81. (b)	82. (d)	83. (c)	84. (b)	85. (c)	86. (a)	87. (d)	88. (a)	89. (c)	90. (b)
91. (c)	92. (a)	93. (a)	94. (b)	95. (d)	96. (a)	97. (c)	98. (b)	99. (c)	100. (d)